



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
प्रेस नोट

दिनांक-23.11.2021

थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा वांछित साइकिल चोर मुन्ना खान गिरफ्तार
कुल 11 अदद चोरी की साइकिल बरामद

थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 251/2021 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 254/2021 धारा 41,411,413,414 भादवि थाना चेतगंज से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुन्ना खान पुत्र रज्जू खान निवासी ग्राम मड़िया,पड़ाव थाना मुगलसराय जिला चन्दौली को DCM तिराहा,चेतगंज से दिनांक 22.11.21 को समय 21.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 व उसकी निशानदेही पर चोरी की 10 साइकिल कबाड़ी बाजार से बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण –

दिनांक-21.11.2021 को श्री संतोष मौर्या पुत्र स्व0 देवनाथ मौर्या निवासी S 23/169 A-1-A, पानी टंकी चौकाघाट, जैतपुरा वाराणसी ने यह लिखित प्रा.पत्र दिया कि समय करीब 5 बजे मेरी दुकान के सामने से मुन्ना नामक व्यक्ति द्वारा मेरी साइकिल चोरी कर ली गई है, जिसके आधार पर थाना चेतगंज में मु0अ0सं0 251/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्रीमती नीलम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुन्ना खान पुत्र रज्जू खान निवासी ग्राम मड़िया, पड़ाव थाना मुगलसराय जिला चन्दौली उम्र करीब 45 वर्ष ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त मुन्ना खान ने बताया कि मैं वाराणसी शहर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में घूमफिर कर मौका निकाल कर लोगों की खड़ी साइकिल चुराकर उन्हें छिपाकर रखता हूँ और मौका मिलने पर चुराई हुई साइकिल को बेचकर पैसा कमाता हूँ । दिनांक-21.11.2021 को चेतगंज में संदीप होटल के सामने फूल-माला बेचने वाले माली की साइकिल को शाम करीब 5 बजे उसकी दुकान के पास से मैंने ही चुराया था । आज मैं उसी साइकिल को बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगों द्वारा साइकिल सहित पकड़ लिया गया । अन्य 10 साइकिल जो आपने मेरी निशानदेही पर कबाड़ी बाजार से बरामद की हैं उन्हें मैंने अलग-अलग जगह से चुरा कर छतिग्रस्त गाड़ियों के बीच छुपा कर बेचने के लिए रक्खा था ।

बरामदगी का विवरण- भिन्न-भिन्न कंपनियों की कुल 11 अदद चोरी की साइकिल ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 अजय कुमार शुक्ला चौ0प्र0 पानदरीबा थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.उ0नि0 श्रीमती नीलम सिंह चौ0प्र0 चेतगंज थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.हे0का0 मनोज कुमार थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.हे0का0 सुरेश यादव थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5.का0 बृजेश राय थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 6.का0 आनन्द राज थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी